

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा शुक्रवार परेड का निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में

आज दिनांक- 24.02.2023 को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉ० ओपी सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई। परेड का संचालन क्षेत्राधिकारी लाइन श्री श्याम नारायण द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक मो० हकीमुद्दीन एवं समस्त शाखा प्रभारी /यूपी-112 व अन्य पुलिसकर्मी परेड में मौजूद रहे। परेड की सलामी के उपरान्त परेड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। तदोपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मुख्य आरक्षियों को प्रशिक्षण से संबंधित अन्य जानकारी दी गयी तथा अस्लाहो का अभियास कराया गया। परेड में मौजूद पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना एवं उनका मौके पर समाधान किया एवं कुछ समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। परेड निरीक्षण के पश्चात पुलिस लाइन परिसर में भ्रमण किया गया। नवनिर्मित बिल्डिंग, मैस, बाथरूम, शौचालय, कैण्टीन, आटा-चक्की, पुलिस मॉडर्न स्कूल, डॉग स्कायड रूम, कंट्रोल रूम, डायल 112 रूम, रेडियो शाखा, एमटी कार्यालय, महिला/पुरुष बैरक का निरीक्षण कर व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने हेतु प्रतिसार निरीक्षक एवं संबंधित शाखा प्रभारी को निर्देशित किया गया। आरटीसी मैस में जाकर भोजन की गुणवत्ता को चैक किया गया तथा भोजन में और अधिक गुणवत्ता पूर्वक स्वादिष्ट भोजन बनाए जाने हेतु मैस प्रबंधक को निर्देशित किया गया। स्टोर मोहरीर को स्टोर रूम से अनावश्यक सामान हटाने तथा समय-समय पर शस्त्रों की साफ-सफाई कराते हुए गार्ड को दुरुस्त रहने हेतु निर्देशित किया गया। ट्रैफिक पुलिस / पीआरवी / सिविल पुलिस व अन्य समस्त अधि० / कर्म०गण को निर्धारित प्वाइंट पर ड्यूटी के दौरान बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुये जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने तथा यूपी 112 में डियूटीरत कर्म०गणों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने हेतु तथा डियूटी पाइंट पर अपनी उपस्थिती प्रदर्शित करने हेतु गाड़ी पर लगी लाइट को ऑन रखने हेतु एवं डायल-112 प्रभारी को दिन-रात्रि ड्यूटी में लगी पीआरवी वाहनो एवं कर्मचारीगणो की लोकेशन निर्धारित स्थानो पर है या नही चैक करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस लाइन परिसर में बनी विभिन्न शाखाओं / स्थानों का निरीक्षण कर आवासीय परिसर की साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया।

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूं।